

17th September, 2020

To,
The National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza",
Plot No. C/1, G Block,
Bandra- Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai-400051

NSE Symbol:

JHS

Department of Corporate Services
The Bombay Stock Exchange Limited
25th Floor, P.J Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Company Code No: 532771

Subject: Submission of Copies of Published Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company

Dear Sir.

In continuation of our letter dated September 15, 2020, we enclose copies of newspapers publications in which Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the First Quarter ended June, 30, 2020 are published on September 17, 2020 in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi).

This is for your kind information and record.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours sincerely,

FOR JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED

Company Secretary & Compliance Officer

Enclosure: as above



Registered Office: Trilokpur Road, Kheri (Kala-Amb), Tehsil-Nahan, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh - 173030, INDIA Tel.: +91-1702-302119/121/102 - Fax: +91-1702-302125

Tencent investing \$63 mn in Flipkart

Bengaluru, 16 September

hinese technology conglomerate Tencent is investing \$62.8 million in Walmart-owned e-commerce firm Flipkart, according to a report by business intelligence platform Paper.vc.

The investment comes amid Sino-India tensions, including the ban on Chinese apps and the changes to the foreign direct investment (FDI) norms and pre-clearance mechanisms on investments from China.

Walmart had announced a \$1.2-billion infusion into Flipkart in July, but no filings in connection with that announcement have yet been made.

"There is the possibility though that Tencent's investment is the first money in, as part of this larger round involving Walmart and other shareholders," said Paper.vc.

Paper.vc said Tencent is a minority investor in the platform whose Singapore-holding firm saw Walmart acquiring a majority stake in 2018. It said Tencent shares the cap table with other minority investors, including Tiger Global, Accel, former Flipkart chief executive officer and co-founder Binny Bansal, Microsoft, and Singapore GIC. "Our calculations based on the available data indicate that Tencent holds stake in the range of 4-5.3 per cent," said Paper.vc.

Flipkart did not respond to the query about this development. Even as Tencent announced that it was opening a regional hub in Singapore, it appears to be generating conflicting signals about its India strategy.

Recent news reports indicated that Tencent was selling a part or all of its holding in Indian gaming platform Dream11. But it marked its Singapore announcement by enhancing its stake in Flipkart, according to the Paper.vc report.

Experts said the investment is part of the portfolio and investment restructuring stratto combat regulatory measures



TOP INVESTMENTS OF TENCENT IN **INDIAN COMPANIES**

Company	Area
Byju's	Education technolog
Dream Sport	s Fantasy sports
Flipkart	E-commerce
Hike	Messaging
Ola	Ride hailing
Swiggy	Food delivery
Udaan	B2B e-commerce
Ibibo Group	*Online travel
KhataBook	Fintech

Digital health care *Merger with MMT Source: Various reports

adopted by India, curbing

opportunistic takeover and

Home security

MyGate

technology

acquisitions of Indian firms. "But these creative structures may further require the Indian government to revisit the restrictions put in place. Creative structure of indirect holdings in parent entities are being devised to circumvent regulatory approvals by the Indian government," said Sumit Kochar, corporate commercial lawyer and transaction advisory partner at Dolce Vita Trustees.

Amid rising tension with China arising from a border dispute, the Indian government also recently banned a number of applications that it said were owned by Chinese companies, on the grounds of national security. Among them was Tencent's multiplayer battle egy being adopted by Tencent royale game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

Flipkart eyes foreign listing as early as 2021

Flipkart is preparing for an initial public offering overseas as early as 2021, sources said. Flipkart will be aiming for a valuation in the \$45-50 billion range, according to one source with knowledge of the matter. If achieved, that would mean Walmart would have more than doubled its investment. Flipkart is likely to choose between Singapore, or the US for the IPO, said two other sources.

But Kochar of Dolce Vita Trustees said that Tencent's investment strategy for Indian market unicorns appears to be still strong despite the recent blow to its start-up investments, including PUBG.

Other experts said that the FDI norms introduced by the government recently apply to new investments.

"The government had carved out an exception for the ongoing investments deals from China or with Chinese investors and allowed ongoing deals to be completed within a specified time frame," said Salman Waris, managing partner at technology law firm TechLegis Advocates and Solicitors, adding, "Also, this investment in Flipkart by Tencent looks like an indirect investment deal, as it might be routed through Tencent's entity in Singapore.'

GOLDEN

OPPORTUNITY!!!

TO BUY BUSINESS OF GOLDEN PRIME INDUSTRIAL CHEMICALS.

Advance Surfactants India Limited - In Liquidation

E-Auction of Business as a Whole & On Going Concern Basis Under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date & Time of E-Auction: Friday, 25th September 2020 from 11 am to 5 pm (With unlimited extension of 10 minutes) E-Auction Sale of Business as a Whole & on Going Concern Basis of M/s Advance Surfactants India Limited – In Liquidation on "As is

· ·				
Nature of Asset	Description	Reserve Price (INR)	Earnest Money Deposit (INR)	Incremental Bid Amount (INR)
	The Corporate Debtor comprising of All the Units of All Locations located at Silvassa, Puducherry, Hooghly, Mangalore and Pithampur (MP) as a Going Concern. (Description of Assets, Properties etc owned by the Corporate Debtor at all the Locations provided in E-Auction Process Information Document and may be downloaded from the link provided below)	20,00,00,000/- (Rupees Twenty Crores	Rs. 1,00,00,000/- (Rupees One Crore only)	(Rupees Ten

Terms and Conditions of the E-Auction:

Date: 15 September 2020

The complete E- Auction Process Information Document containing Terms and Conditions of E- Auction are available on website of approved service provider M/s Right2vote Infotech Private Limited - https://right2vote.in and also on www.kgsip.com For any clarifications Contact Mr. K G Somani, E-Mail: kgsomani.advance@gmail.com

The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e- Auction of withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof. Sd/- Kishan Gopal Somani - Liquidator

IBBI Rea No: IBBI/IPA-001/IP-P00300/2017-18/10544

KG Somani Insolvency Professionals Private Limited Address: 3/15, 4th Floor, Asaf Ali Road, New Delhi - 110002, Email id: kgsomani.advance@gmail.com, Contact Number: 011-41426262, 011-23277677, 9310182010

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2020

JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED

				(Rs in lacs)
	Quarter Ended 30 th June	Quarter Ended 31 st March	Quarter Ended 30 th June	Year Ended
Particulars Particulars	2020	2020	2019	2020
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total income from operations	1,873.13	4,907.49	2,704.10	15,294.92
Net Profit / (Loss) for the period	(318.89)	682.50	(101.16)	479.39
(before tax, exceptional item and/or extraordinary items)				
Net Profit / (Loss) for the period	(318.89)	(381.19)	(101.16)	(584.30)
(before tax after exceptional and/or extraordinary items)				
Net Profit / (Loss) for the period	(250.23)	(252.96)	(76.67)	(485.50)
(after tax exceptional and/or extraordinary items)				
Total comprehensive income for the period	(249.39)	(254.86)	(74.91)	(482.13)
Equity Share Capital (Face value of Rs 10 each)	6,090.05	6,090.05	6,090.05	6,090.05
Reserves (Excluding Revaluation Reserves)	-	-	-	11,709.80
Earnings per equity share(of Rs 10 each)				
(a) Basic (Rs)	(0.41)	(0.30)	(0.05)	(0.32)
(b) Diluted (Rs)	(0.41)	(0.30)	(0.05)	(0.32)
Key numbers of Standalone Financial Results				
	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended

Key numbers of Standalone Financial Results				
	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
	30 th June	31st March	30 th June	31st March
Particulars Particulars	2020	2020	2019	2020
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total income from operations	1,778.75	4,752.59	2,459.70	14,470.93
Profit / (Loss) for the period	(213.97)	(195.33)	73.46	179.09
(after extraordinary activities but before tax)				
Profit / (Loss) for the period	(198.28)	(110.71)	46.60	176.99
(after extraordinary activities and tax)				
Total comprehensive income for the period	(198.66)	(116.30)	47.96	175.46

Notes: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financia Results for the quarter ended 30th June 2020 are available at the website of the BSE (www.bseindia.com) and NSE (<u>www.nseindia.com</u>) and also on company website <u>www.svendgaard.com</u>.

For and behalf of For JHS Svendgaard Laboratories Limited

Nikhil Nanda Managing Director DIN 00051501

Start-ups cheer proposal to remove LTCG tax

Mumbai, 16 September

The recommendation to abolish long-term capital gains (LTCG) tax for investments in start-ups for two years is expected to result in tangible benefits for the community.

The move will establish a level-playing field for domestic investments in start-ups compared to foreign-based sources. It will also encourage domestic financial institutions to see start-ups as an alternative asset class that has been heavily dependent on foreign capital till now, experts said.

"It is a great first step as domestic money is not flowing into the (start-up) ecosystem Siddarth Pai, founding partner like other nations. A

lot of foreign capital This may result is taking a larger slice in investments of the pie. The tax **from domestic** incentives will go a banks and long way in kick- insurance firms starting the domestic

contribution as most PE and VC such as Singapore or Delaware funds have also raised money outside India. This will unlock domestic capital from insurance and financial institutions that don't usually invest in startups," said V Balakrishnan, partner and chairman at Exfinity Venture Partners.

Of the \$14 billion raised by start-ups from VCs in 2019, only around \$1 billion came from Indian sources, said experts.

"These reforms would open the floodgates of domestic capital going into start-ups like never before as long as the eligibility criteria of the tax bene- projected to be minimal.

fits are not too narrow," said Kunal Bahl, CEO and cofounder of Snapdeal.

"The LTCG tax in India is higher for private and unlisted securities, that is at 20 per cent, when compared to publiclylisted securities (10 per cent). This policy is short-sighted because start-ups directly create jobs and tech advancements, including IP in India," said Kushal Bhagia, CEO at Firstcheque.vc.

"Fully loaded, Indian investors into start-ups pay 2.54 times the rate paid by their foreign counterparts. This is the reason for the emaciated participation of Indian investors in domestic start-ups," said

at 3one4 Capital. The tax incentive will also dissuade a lot of India-focussed start-ups from registering their headquarters in cities

instead of India as encouraged by the foreign-based PE or VC funds that have backed them.

"Tax is a big motivator for foreign funds to encourage such a move (of setting up foreign-registered holding companies) as it fetches them a better internal rate of return (IRR). Now, that argument doesn't hold as much water," he said.

Experts said the recommendations are likely to be adopted as long-term benefits will outweigh the quantum of revenue impact that is anyway

ओएनजीसी ongc

Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

CIN: L74899DL1993GOI054155 Reg. Office: Plot No. 5A-5B, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi, South West Delhi - 110070 | Tel: 011-26754073/4085 Website: www.ongcindia.com, email: secretariat@ongc.co.in

NOTICE OF THE 27TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

Notice is hereby given that 27th Annual General Meeting (AGM) of the Members of OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED will be held on Friday, the **09.10.2020** at **11:00 hrs.** IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies act 2013 and the rules made thereunder and SEBI - Listing Obligations and Disclosures Requirements (LODR) Regulations, 2015 read with applicable circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (hereinafter collectively referred to as 'circulars') to transact the business items as set out in the Notice.

E-dispatch of Notice of AGM and Annual Report FY'20: Electronic copies of Notice of AGM and Annual Reports for the FY'20 have been sent to Members through emails whose email IDs are registered with Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company/ Depositories participant(s) on **04.09.2020.** Notice and Annual Report FY'20 are also available on the website of the Company, Stock exchanges (BSE and NSE)

and National Securities Depository Ltd (NSDL).

Company is providing facility to cast vote(s) on the business set forth in the Notice through remote e-voting as well during the AGM through VC/OAVM.

1. Members are hereby informed that

- i. The remote e-voting period will commence on 05.10.2020 (15:00 hours IST) and end 08.10.2020 (17:00
- ii. During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 02.10.2020 i.e. cut-off date, may cast their votes electronically.
- iii. Any person who becomes member after dispatch of Notice and holds shares as on cut-off date, may obtain Login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in However, if the person is already
- registered with NDSL for e-voting then the existing User ID and Password can be used for casting vote. iv. Remote e-voting facility shall be disabled by NSDL at 5:00:01 p.m. IST on 08.10.2020 and the vote once cast through remote e-voting cannot be changed subsequently.
- v. The Members who have casted their vote/s by remote e-voting prior to the AGM may attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote/s again.
- vi. Members, who will be attending AGM through VC/OAVM facility and have not cast their votes on the business items through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through evoting system during the AGM.
- 2. In case you have any queries relating to e-voting, you may refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) and f evoting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or may contact Ms. Pallavi Mhatre (Manager), NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, at the designated e-mail: evoting@nsdl.co.in Tel: 1800 222 990 / 91 22 24994200 / 91 22
- 3. In terms of Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, as the AGM is being conducted through VC, the requirement of webcast under SEBI (LODR) has been complied with
- 4. Members are requested to read carefully all the instructions given in the Notice of AGM for joining the AGM through VC/ OAVM and manner of casting vote through e-voting

16.09.2020

for Oil and Natural Gas Corporation Ltd M E V Selvamm Compliance Officer. Company Secretary & Executive Director

SPML INFRA LIMITED

CIN: L40106DL1981PLC012228

Registered Office: F-27/2, Okhala Industrial Area, Phase-II, New Delhi- 110020 Website: www.spml.co.in, email-id: info@spml.co.in

Extract of Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2020 (Rs. in Lakhs)

	STANI	DALONE					CONS	OLIDATED	
Qı	ıarter Ende	d	Year Ended		DARTICUI ARS		Quarter En	ded	Year Ended
30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020		PARTICULARS	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
9,435.08	25,767.52	21,196.70	107,308.69	1.	Total income from operations	9,329.63	39,796.26	41,574.68	181,513.97
(3,475.35)	(523.42)	706.51	158.29	2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(3,697.57)	762.49	1,135.60	2,447.82
(3,475.35)	(523.42)	706.51	158.29	3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(3,697.57)	762.49	1,135.60	2,447.82
(3,105.21)	91.38	898.86	241.80	4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(3,183.75)	490.61	1,187.06	659.13
(3,087.59)	531.25	911.84	699.81	5.	Total Comprehensive Income for the period	(3,166.13)	921.12	1,200.84	1,109.10
819.45	819.45	819.45	819.45	6.	Equity Share Capital	819.45	819.45	819.45	819.45
·				7.	Earnings Per Share (of Rs.2/- each) in Rs.		·	·	
(8.47)	0.25	2.45	0.66	8.	Basic & Diluted (Rs)	(8.69)	1.34	3.24	1.80

The Company does not have any Exceptional and Extraordinary items to report in above periods

- 1. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2020 are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com and the Company's website www.spml.co.in.
- 2. The Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2020 was approved by the Audit Committee and the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 15th September, 2020.

Subhash Chand Sethi Chairman DIN: 00464390

Dated: 15th September, 2020 Place: Kolkata

ZODIAC FINEST QUALITY CLOTHING

EXTRACT FROM THE UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL

RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2020 CONSOLIDATED

PARTICULARS		QUARTER ENDED OF	N .	YEAR ENDED ON		QUARTER ENDED ON		
	June 30, 2020 (Unaudited)	March 31, 2020 (Refer Note 'c' below)	June 30, 2019 (Unaudited)	March 31, 2020 (Audited)	June 30, 2020 (Unaudited)	March 31, 2020 (Refer Note 'c' below)	June 30, 2019 (Unaudited)	March 31, 2020 (Audited)
Total Income from operations	2,461	4,667	6,070	20,683	1,806	4,707	5,402	20,296
Net Loss for the period before tax	(778)	(639)	(645)	(2,335)	(1,443)	(717)	(1,303)	(3,005)
Loss for the period after tax	(891)	(580)	(640)	(2,132)	(1,451)	(681)	(1,350)	(2,897)
Total Comprehensive Loss for the period [Comprising Profit /								
(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive								
Income (after tax)]	(990)	(1,312)	(525)	(3,278)	(1,467)	(1,177)	(1,240)	(3,733)
Paid up Equity Share Capital	2,248	2,248	2,129	2,248	2,248	2,248	2,129	2,248
Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (not annualized)								
(in Rs.)								
1. Basic:	(3.96)	(2.58)	(3.01)	(9.65)	(6.46)	(3.03)	(6.34)	(13.10)
2. Diluted:	(3.96)	(2.58)	(3.01)	(9.65)	(6.46)	(3.03)	(6.34)	(13.10)
	Total Income from operations Net Loss for the period before tax Loss for the period after tax Total Comprehensive Loss for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid up Equity Share Capital Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (not annualized) (in Rs.) 1. Basic:	Total Income from operations Net Loss for the period before tax Loss for the period after tax Total Comprehensive Loss for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid up Equity Share Capital 2,248 Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (not annualized) (in Rs.) 1. Basic: (3.96)	June 30, 2020 (Narch 31, 2020 (Refer Note 'r' below) Total Income from operations 2,461 4,667 Net Loss for the period before tax (778) (639) Loss for the period after tax (891) (580) Total Comprehensive Loss for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) (990) (1,312) Paid up Equity Share Capital 2,248 2,248 Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (not annualized) (in Rs.) 1. Basic: (3.96) (2.58)	June 30, 2020 (Unaudited)	June 30, 2020 (Unaudited) June 30, 2020 (Refer Note 'c' below) June 30, 2019 (Unaudited) June 30, 2019 (Inaudited) June 30, 2019 (In	June 30, 2020 (Unaudited) March 31, 2020 (Refer Note 'c' below) Unaudited) March 31, 2020 (Audited) March 31, 2020 (Audited) March 31, 2020 (Unaudited) March 31, 2020 (Unaudited) March 31, 2020 (Unaudited) March 31, 2020 (Unaudited)	June 30, 2020 (Unaudited) March 31, 2020 (Refer Note 'c' below) Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Refer Note 'c' below) (Verificial Profit / Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Refer Note 'c' below) (Refer Note 'c' below (Refer Note 'c' below) (Refer Note 'c' below (Refer Note 'c' below (Refer Note 'c' below (Refer Note 'c' below (Refer Note 'c' below} (Refer Note 'c' below (Refer	June 30, 2020 (Unaudited) March 31, 2020 (Refer Note 'c' below) March 31, 2020 (Refer Note 'c' below) March 31, 2020 (Unaudited) (Unaudited) March 31, 2020 (Unaudited) (Refer Note 'c' below) March 31, 2020 (Refer Note 'c' below 'c' be

a) Theabove is an extract of the detailed formatof Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulation, 2015. The fullformat

of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websiteswww.nseindia.com and www.bseindia.com and on Company's website www.zodiaconline.com b) The Company's plants, retail stores and offices were shut down from March25, 2020 consequenttonationwidelockdown announced by the Government of India due to COVID19 pandemicand with easing of restrictions, the Company's plants, retails to resand offices have commenced the operations. However, since the lock down continued for most part of the current quarter, the low market demand has impacted the financial results of the current quarter.Considering the current situation, there are no material adjustments required to the carrying valueof assets and liabilities as at June 30, 2020 and the Company will continue to monitor the changes for any material impact as

c) The figures for the quarterended March31,2020 are the balancing figures between audited figures inrespectof the full financial yearended March31,2020 and the unaudited published year todatefigures upto third quarter

S. Y. NOORANI Vice Chairman & Managing Director

For and on behalf of the Board of Directors

DIN: 00068423

ZODIAC CLOTHING COMPANY LTD.

Regd. Office: Nyloc House, 254, D-2, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030. Tel : 022-66677000, Fax : 022-66677279, Website: www.zodiaconline.com, Email Id: cosecy@zodiacmtc.com CIN: L17100MH1984PLC033143



















Place: Mumbai Date: September 15, 2020













818.00-

कोविड-१९ का टीका विकसित करने के लिए सीएसआईआर संग करार ₹ 818.0 पिछला बंद भाव

1,001.10 🚣 🦡 के लिए अमेरिकी कंपनी संग साझेदारी ₹ 981.9 पिछला बंद भाव

157.30

स्टरलाइट टेक्नोलॉजिज

. ¹⁶⁹ एयरटेल के लिए 10 सर्किल में तैयार करेगी आधुनिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ₹ 157.3 पिछला बंद भाव ▲ 3.8 %

नैशनल फर्टिलाइजर्स **€**32.90

कंपनी ने तीन त्रैमासिक

शिड्यूल को मंजूरी र्द

किस्तों के संशोधित भुगतान

^{−41} पहली तिमाही में १५० करोड़ रूपये का कर पूर्व लाभ ₹ 36.5 पिछला बंद भाव **4.4** %

लक्ष्मी विलास बैंक ₹18.30

22.40% विलक्स ग्रुप संग प्रस्तावित विलय के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर ₹ 20.4 पिछला बंद भाव **▲ 9.8** %

संक्षेप में

राजेश एक्सपोर्ट का मुनाफा 50 फीसदी घटा

सोने का शोधन करने वाली कंपनी राजेश एक्सपोर्ट ने बताया कि 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान उसका शुद्ध लाभ 49.61 प्रतिशत गिरकर 152.13 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने बताया कि एक साल पहले इसी अवधि में उसका शुद्ध लाभ 301.94 करोड़

शेयरचैट ने एचपीएफ फिल्म्स को खरीदा

भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयरचैट ने बधवार को कहा कि उसने वीडियो निर्माण कंपनी एचपीएफ फिल्म्स का अधिग्रहण किया है, जिसे डिजिटल कंटेंट में विशेषज्ञता हासिल है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि अधिग्रहण से शेयरचैट और इसके लघ् वीडियो प्लेटफॉर्म मौज को बेहतर कंटेंट इकोसिस्टम बनाने की दिशा में मदद मिलेगी और ब्रांड के लिए उसके विज्ञापन समाधानों में वद्धि होगी। कंपनी ने हालांकि इस सौदे की राशि की जानकारी नहीं दी।

स्टरिलंग ऐंड विल्सन ने भुगतान का समय बढ़ाया

कंपनी ने सितंबर 2020 की समय-सीमा को आगे बढ़ाया, प्रवर्तक अब सितंबर 2021 तक चुकाएंगे ऋण

दिसंबर

2019

■ आंशिक

भुगतान

के बाद,

प्रवर्तकों

पर कुल

बकाया

करोड़

1,644

अमता पिल्लर्ड मुंबई, 16 सितंबर

पनी सूचीबद्धता के एक साल बाद, स्टरलिंग ऐंड विल्सन सोलर अभी भी इंटरकॉरपोरेट ऋण की संपूर्ण अदायगी का इंतजार है। एक ताजा घटनाक्रम में कंपनी ने अब भगतान की समय-सीमा एक साल तक के लिए बढा दी है।

स्टरलिंग ऐंड विल्सन सोलर ने मंगलवार को एक्सचेंज को भेजी जानकारी में कहा, 'जून 2020 की किस्त और सितंबर 2020 की किस्तों की अदायगी के लिए समय-सीमा 30 सितंबर 2021 तक बढाने के निर्णय को बोर्ड द्वारा मंजुरी दे दी गई है।

कंपनी के प्रवर्तकों - शापरजी पलोंजी ऐंड कंपनी और खुरशेद दारूवाला ने जून और जुलाई में लिखे पत्रों के जरिये जून 2020 की 500 करोड़ रुपये की किस्त की अदायगी को आसान बनाने के लिए समय-सीमा बढाए जाने की मांग की थी। इसके

अलावा, कंपनी ने कहा है कि प्रवर्तकों ने कोविड महामारी और इससे संबंधित कारणों से

अगस्त २०१९ सितंबर २०१९

एसऐंडडब्ल्यू एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हुई

करोड़ रुपये

जुलाई २०२०

करोड़ रुपये की

किस्त चुकाने के

लिए समय मांगा

यह दूसरी बार है जब प्रवर्तकों ने ऋण

समाप्त तिमाही

 प्रवर्तक इंटर-कॉरपोरेट बकाया

संशोधित भुगतान के लिए सूचीबद्ध

सितंबर 2020 कंपनी ने भुगतान

सितंबर में देय किस्त चकाने में अक्षमता

के लिए संशोधित भुगतान शिड्युल की मांग पिछले साल अगस्त में सूचीबद्ध हुई थी। की है। यह कंपनी की सूचीबद्धता से पहले अगस्त 2019 तक, प्रवर्तकों पर कंपनी के

करोड रुपये का बकाया था।

ऋण बाजारों में दबाव की वजह से नकदी संकट को ध्यान में रखते हुए नवंबर में, प्रवर्तकों ने सूचीबद्ध कंपनी को संशोधित भुगतान शिड्यूल के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद, एक नया भुगतान शिड्युल दिसंबर में सामने आया था, जिसमें तीन तिमाहियों का भुगतान मार्च, जुन और इस साल सितंबर में किया जाना निर्धारित था। दिसंबर में बकाया ऋण 1,644 करोड रुपये पर था। स्टरलिंग ऐंड विल्सन सोलर ने मंगलवार को कहा कि प्रवर्तकों ने जून 2020 की 500 करोड़ रुपये की किस्त के तौर पर 103 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उसने कहा, 'प्रवर्तकों ने जून 2020 की 397 करोड़ रुपये की बकाया किस्त के संबंध में कंपनी को टाइटल डीड्स के जमा के जरिये मॉर्गेज मुहैया कराकर कंपनी के पक्ष्ज में 460 करोड़ रुपये मल्य की खास अचल संपत्तियों पर सिक्योरिटी पेश की।' सितंबर की समय-सीमा नजदीक आने से, प्रवर्तकों ने कंपनी को यह बता दिया है कि पूंजी जुटाने के प्रयास खास परिस्थितियों की वजह से प्रभावित हए हैं। प्रवर्तकों ने कहा है. 'प्रवर्तकों के लिए सितंबर 2020 की किस्त की व्यवस्था करना असंभव है।'

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड

ई-निविदा आमंत्रण सचना दिल्ली टांसको लि. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम, निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है: 1) निविदा सं. टी20आर220243: टर्नकी आधार पर 400 केवी तुगलकाबाद सब-स्टेशन से 220 केवी मस्जिद मोड सब-स्टेशन नई दिल्ली (भारत) तक 220 केवी डी / सी 1x1200 वर एमएम यू./ जी एक्सएलपीई केबल का डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना, जांच एव कमीशनिंग (अनुमानित रूट लम्बाई: 7.0 किमी.)। **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 09.10.2020 के**

अप. 1.30 बजे निविदा दस्तावेज डाउनलोडिंग एवं अन्य विवरणों के लिए कृपया दिल्ली सरकार वेबसाइट

https://govtprocurement.delhi.gov.in ਜਿਹਿदा आईडी ਜਂ. 2020 DTL 194565 1. और डੀਟੀएਰ

प्रसाइट www.dtl.gov.in विशिष्ट नं. DTL-7810-160920, पर लॉग ऑन करें। (पीआर/20-21/19) उल्लिखित ई–निविदाओं से संबंधित सभी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/संशोधन/तिथि विस्तार/ स्पष्टीकरण, यदि कोई हुए तो, केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

₩े हिमाचल फाईबर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्लाट नं. 43-44, इंडस्ट्रियल एरिया, बरोतीवाला-174103, जिला सोलन (हि.प्र.) रपोरेट कार्यालयः 8—एल, मॉडल टाउन, बैकसाइड होटल सेवरॉन, लुघियाना–141002, (पंजाब) वेबसाइटः www.himachalfibre.com, ई-मेलः hfl.corporate@gmail.com 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित

				(र लाखों में प्रति शेय	,
丣.	विवरण	तिमाही	तिमाही	तिमाही	वर्ष
सं.	14441	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त
		(30.06.2020)	(31.03.2020)	(30.06.2019)	(31.03.2020)
		(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल राजस्व	224.00	841.10	1285.68	4,456.14
	(शुद्ध)				
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	-128.89	-90.00	-38.29	-236.89
	(कर, विशिष्ट और/या असाधारण				
	मदों से पूर्व)				
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध	-128.89	-90.00	-38.29	-236.89
	लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / या				
	असाधारण मदों के बाद)				
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध	-128.89	-70.41	-34.94	-230.10
	लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / या				
_	असाधारण मदों के बाद)				
5	अवधि के लिए कुल	-121.30	-67.79	-33.88	-224.31
	समग्र आय [अवधि के लिए				
	लाभ / (हानि) (कर पश्चात)				
	और अन्य समग्र आय				
	(कर पश्चात) सम्मिलित)]				
6	इक्विटी शेयर पूंजी	862.50	862.50	862.50	862.50
ľ	(अंकित मृल्य ₹ 1 / – प्रत्येक)	332.00	552.00	32.00	552.00
7	प्रति शेयर अर्जन				
	(₹1 / – प्रत्येक) (प्रचालन निरंतरता				
	और बंद प्रचालनों के लिए):				
	(ए) मूल	-0.14	-0.08	-0.04	-0.27
	(बी) तरल	-0.14	-0.08	-0.04	-0.27
नोट:					

1. 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्ष समिति द्वारा समीक्षा की गई है और बोर्ड द्वारा 15 सितंबर, 2020 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किए गए हैं।

वित्तीय परिणाम संबंधित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहर निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानक ('इंड एएस') के अनुपालन और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और पकटन आवश्यकताएँ। विनियमावली. 2015 के विनियम 33 और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के मामले में तैयार किए गए हैं।

कंपनी का एकल व्यवसाय खंड है अतः इंड एएस 108 'प्रचालन खंड' के अनुसार खंड रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

चाल् अवधि के वर्गीकरण / प्रस्तुति के अनुरूप करने के लिए पूर्व अवधि के आंकड़ों को जहाँ र्भ आवश्यक हुआ, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

ऊपर सेबी (सचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली. 2015 के विनियम 33 के तह स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्स चेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.himachalfibre.com पर उपलब्ध है।

हिते हिमाचल फाईबर्स लिमिटेड ज्ञान चंद ठाकुर दिनांक : 15.09.2020 पर्णकालिक निदेशव स्थान : लुधियाना डीआईएनः 07006447

बिज़नेस स्टैंडर्ड

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा अमर उजाला प्रेस, प्रेस प्लॉट नं-४९, फेज़-॥, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकुला, हरियाणा से मुद्रित एवं एससीओ ८६१, प्रथम तल, एनएसी, मनी माजरा,चंडीगढ़-१६०१०१ से प्रकाशित

> आरएनआई न० WBHIN/2008/24333 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं1 टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फेक्स- 033-22101599 सबरिक्रप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें.. सुश्री मानसी सिंह

हेड कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टेंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ई मेल.. subs_bs@bsmail.in या ५७००७ पर एसएमएस करें SUB BS

डिसक्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टेंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न् हो सकृते हैं। सुमाचार पत्र में प्रकाशित् रिपोर्टी के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सदभाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके का जोता है। त्यांच्यात एउड़ व रही प्रियोग स्वेताय ने स्वीक्षण है। साथ बिजनेस स्टेंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विद्यापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। विवास क्यांना निर्माण निर्माण कार्या विवास क्यांना विवास क्यांना निर्माण निर्माण निर्माण निर्माण निर्माण निर्म मेरा विजानेस स्टेंडर्ड प्राप्त लिए का सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। विजानेस स्टेंडर्ड प्राप्त लिए से लिखित अनुमति लिए बगैर् सुमाचार पुत्र में प्रकाशित किसी भी सामुग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनिधकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरु

विदेश में सूचीबद्ध होने की तैयारी कर रही फ्लिपकार्ट: वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट 2021 की शुरुआत में विदेश में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की तैयारी कर रही है। इस मामले से अवगत सूत्रों ने बताया कि इससे कंपनी का मूल्यांकन 50 अरब डॉलर तक हो सकता है।

स्टर्डी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

विवरण	समीवित 30/06/2020	ईयर दू डेट 30/06/2020	समीक्षित 30/06/2019
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	9.09	9.09	43.20
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों से पूर्व)	-4.34	-4.34	-7.67
कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	-4.34	-4.34	-80.82
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / हानि (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के बाद)	-4.34	-4.34	-80.82
अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) सम्मिलित)]	-4.34	-4.34	-80.83
इक्विटी शेयर पूंजी	30.25	30.25	30.25
आरक्षित (पूनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार			
प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों से पूर्व) (रु. 2/— प्रत्येक) मूल और तरल			
प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों से पूर्व) (रु. 2/– प्रत्येक) मूल और तरल	100		
नोटः— 1. 30.06.2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंप			

अनुमोदित किए गए और दन परिणामों की लेखापरीक्षकों दारा सीमित समीक्षा गई है। 🤉 जैसे कि कंपनी का व्यवसाय गतिविधि एकल प्राथमिक व्यवसाय खंड के अंतर्गत आती है. परिचालन खंड पर लेखाकर मानक (इंड एएस 108) की प्रकटन आवश्यकता कंपनी पर लाग नहीं है। 3. पर्व वर्ष के आंकड़ों के तुलनीय करने के लिए जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ, पुनर्समूहित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है 4. शिकायतों की स्थित:– तिमाही के आरंभ और समाप्ति पर कोई नहीं क्योंकि तिमाही के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। **5.** 30.06.2020 को समाप्त तिमाही के दौरान अप्रैल माह और मुई के मध्य तव कोविड-19 के कारण प्लांट बंद रहा. इसलिए तदनरूप तिमाही के साथ परिणाम तलनीय नहीं हैं।

बोर्ड की ओर से व उन्हीं के लिए हस्ता./- **रमेश गुप्त** दिनांक : 15.09.2020 पूर्णकालिक निदेशक (डीआईएन:- 00161363)

5जी: भारत के लिए विशेष मानक का विरोध

सुरजीत दास गुप्ता नई दिल्ली, 16 सितंबर

दुरसंचार ऑपरेटर 5जी के लिए रेडियो इंटरफेस स्टैंडर्ड अथवा आरआईटी हासिल करने के लिए दुरसंचार मानक विकास सोसायटी (टीएसडीएसआई) के प्रमुख सदस्यों के साथ तगड़ी प्रतिस्पर्धा में उलझ गए हैं। ऑपरेटरों को तीसरी पीढ़ी की साझेदारी परियोजना अथवा 3जीपीपी द्वारा निर्धारित वैश्विक मानदंडों का अनुपालन करना होगा। इस परियोजना जिसमें सभी वैश्विक दुरसंचार एवं गियर विनिर्माता बतौर सदस्य शामिल हैं, वैश्विक 3जी मानकों के अनुरूप शुरू हुई है और अब दिनया भर के लिए 5जी मानक तैयार कर रही है।

भारत के लिए विशेष मानक से न हम आरआईटी को अपनाते हैं केवल दूरसंचार नेटवर्क के लिए तो भारत दुनिया में अलग-लागत बढेगी बल्कि मोबाइल थलग पड जाएगा। आप अपने उपकरण के लिए चिपसेट की फोन के साथ विदेश में घूमने में लागत भी बढ जाएगी क्योंकि उसे स्थानीय बाजार के लिए चिपसेट और रेडियो केवल बनाना होगा और ऐसे में वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ नहीं मिलेगा। उनका

यह भी कहना है कि भारत के लिए अलग मानक होने से इंटर-प्रोर्टेबिलिटी संबंधी गंभीर समस्या भी पैदा होगी जैसे भारतीय लोग दुसरे देशों में अपने भारतीय फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

टीएसडीएसआई के प्रस्ताव का मतलब यह भी है कि 4जी नेटवर्क को 5जी नेटवर्क के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करना संभव नहीं होगा और ऐसे में भारतीय ऑपरेटरों को 5जी के लिए एक स्वतंत्र नेटवर्क तैयार करने के लिए मजबूर होना पडेगा जिसके लिए काफी खर्च करना पड़ेगा। एक दुरसंचार ऑपरेटर के शीर्ष अधिकारी ने कहा, '3जीपीपी और आरआईटी 5जी के लिए दो अलग-अलग मानक हैं। यह सीडीएमए और जीएसएम के ऑपरेटरों का कहना है कि बीच चयन करने जैसा है। यदि समर्थ नहीं होंगे क्योंकि उसका भारत के लिए डिजाइन किया गया होगा। इससे लागत भी बढेगी।'

एसबीआई की याचिका पर सुनवाई आज से देव चटर्जी

मुंबई, 16 सितंबर

अनिल अंबानी की व्यक्तिगत गारंटी के मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के परिणाम पर भारतीय ऋणदाताओं की काफी उत्सुकता से नजर बनी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई गुरुवार से शुरू होने जा रही है।

एक बैंकर ने कहा कि अंबानी ने कॉरपोरेट ऋणदाता अधिनियम 2019 के तहत व्यक्तिगत गारंटी को भुनाने संबंधी एसबीआई की दलील पर आपत्ति जताई है। इस कानून के तहत बैंकों को नैशनल लॉ ट्रिब्यनल (एनसीएलटी) में प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी को भुनाने की

संहिता (आईबीसी) के दायरे में केवल भारतीय कंपनियां आती थीं कि प्रवर्तक अथवा प्रवर्तक समृह। लेकिन नए कानून के लागू होने से प्रवर्तकों द्वारा 1,000 करोड़ रुपये अथवा इससे

 अनिल अंबानी की व्यक्तिगत गारंटी को भूनाने का मामला

भारतीय प्रवर्तकों की

व्यक्तिगत गारंटी होगी बहस के दायरे में

अधिक के ऋण के लिए दी गई व्यक्तिगत गारंटी को भी इसके दायरे में ले लिया गया है। एक बैंकर ने कहा, 'अनिल अंबानी का मामला ऐसा पहला मामला होगा जहां आईबीसी के तहत व्यक्तिगत गारंटी को भनाने की पिछले साल नवंबर तक ऋण पहल की गई है और वह मामला शोधन अक्षमता एवं दिवालिया फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में है। इससे 40 अन्य शीर्ष डिफॉल्टरों के भाग्य का भी फैसला हो जाएगा जिन्हें 2017 में आईबीसी कानून के प्रभावी होने के बाद एनसीएलटी भेजा गया था।'

VENUS

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामीं का सार

(रु. मिलियन में) विवरण स्टैण्डएलॉन समाप्त तिमाही समेकित समाप्त तिमाही स्टैण्डएलॉन समेकित समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 31.03.2020 31.03.2020 अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित अलेखापरीक्षि **ग्लेखापरीक्षित** अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित पचालनों से कुल आय 1797.10 708.23 3223.60 3414.63 792.22 अवधि हेतु निबल लाभ/हानि 111.77 28.83 (36.87)111.44 (40.73)25.50 7.78 (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पर्व) कर पूर्व अवधि हेतु निबल 20.07 (59.29)(36.87)(40.73)(62.62)(80.34)लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों वे पश्चात) कर पश्चात अवधि हेत निबल (67.44) 19.73 (40.73) (82.26) 20.07 (36.87)(99.98)लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों वे अवधि हेतु कुल व्यापक आय 20.07 (72.16)(36.87)19.73 (40.73)(86.98) (104.70)[अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक इक्विटी शेयर पँजी आरक्षितियाँ एवं अधिशेष आय 123.42 123.42 123.42 123.42 123.42 123.42 123,42 पति शेयर (रु. 10 प्रत्येक के) 3199.11 3110.28 (वार्षिकीकृत नहीं) (8.10) (2.99) डाइल्यूटेड : (5.46)

विनीय परिणामों की टिप्पणी 1. कम्पनी के उपर्यक्त अलेखापरीक्षित परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी है और 15 सितम्बर. 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की गयी है। कम्पनी के विधिक लेखापरीक्षकों ने 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के उपर्युक्त स्टैण्डएलॉन तथा समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।

2. वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तथा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) के अनुरूप तैयार किया गया है। 3. जहाँ आवश्यक समझा गया गत वर्ष/गत अवधि के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

5. पूर्ण वित्तीय परिणाम बीएसई, एनएसई तथा कम्पनी की वेबसाइटों www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.venusremedies.com पर उपलब्ध है।

सीआईएन : 24232CH1989PLC009705

4. कम्पनी का केवल एक ही रिपोर्टेबल खण्ड "फार्मास्यूटिकल्स" है।

(पवन चौधरी)

JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED

				(Rs in lacs
Particulars	Quarter Ended 30 th June 2020 Unaudited	Quarter Ended 31st March 2020 Audited	Quarter Ended 30 th June 2019 Unaudited	Year Ender 31 st March 2020 Audited
Total income from operations	1,873.13	4,907.49	2,704.10	15,294.92
Net Profit / (Loss) for the period	(318.89)	682.50	(101.16)	479.39
(before tax, exceptional item and/or extraordinary items)				
Net Profit / (Loss) for the period	(318.89)	(381.19)	(101.16)	(584.30)
(before tax after exceptional and/or extraordinary items)				
Net Profit / (Loss) for the period	(250.23)	(252.96)	(76.67)	(485.50)
(after tax exceptional and/or extraordinary items)				
Total comprehensive income for the period	(249.39)	(254.86)	(74.91)	(482.13)
Equity Share Capital (Face value of Rs 10 each)	6,090.05	6,090.05	6,090.05	6,090.05
Reserves (Excluding Revaluation Reserves)	-	-	-	11,709.80
Earnings per equity share(of Rs 10 each)				
(a) Basic (Rs)	(0.41)	(0.30)	(0.05)	(0.32)
(b) Diluted (Rs)	(0.41)	(0.30)	(0.05)	(0.32)

Key numbers of Standalone Financial Results	0 t F t t	0 - 1 - 5 - 1 - 1	Quarter Ended	Year Ended
	Quarter Ended	Quarter Ended		
	30 th June	31 st March	30 th June	31 st March
Particulars Particulars	2020	2020	2019	2020
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total income from operations	1,778.75	4,752.59	2,459.70	14,470.93
Profit / (Loss) for the period	(213.97)	(195.33)	73.46	179.09
(after extraordinary activities but before tax)				
Profit / (Loss) for the period	(198.28)	(110.71)	46.60	176.99
(after extraordinary activities and tax)				
Total comprehensive income for the period	(198.66)	(116.30)	47.96	175.46

Notes: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended filed with the Stock Exchange unde Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financia Results for the quarter ended 30th June 2020 are available at the website of the BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and also on company website www.svendgaard.com.

For and behalf of For JHS Svendgaard Laboratories Limited

Nikhil Nanda

Managing Director

कोई हवाई अधिभार नहीं

1.7 %

इन्फोसिस **▲ 2.0** %

एसऐंडडब्ल्यू सोलर के प्रवर्तकों पर ऋण

■ आंशिक भुगतान के बाद, प्रवर्तकों पर बकाया 2,341 करोड़ रुपये

नवंबर 2019 प्रवर्तकों ने

 प्रवर्तकों ने जून **2020 की 500**

२०२१ किए जाने को मंजूरी दी

दिया गया था। स्टरलिंग ऐंड विल्सन सोलर लिए ब्याज और मूल के तौर पर 2,563